



# संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29-01-2021

## नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौरस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 45/2021 धारा 363 / 366 / 120 B भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता संजय पुत्र श्रीकान्त चौहान निवासी पुरनहा थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.01.2021 को वा दिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लिया गया था, जिसके संबंध में वादि नी द्वारा थाना धनघटा पर पर दिनांक 27.01.2021 को लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा द्वारा गंभीरता एवं तत्परता दिखाते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 29.01.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

## अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 19 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 20 लीटर कुल अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – लालमन पुत्र मंगल चौहान निवासी सुटेहरा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2- मो0 अशरफ पुत्र रोशन अली निवासी केसारी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 09 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर



@santkabirnapol



Pro Cell Santkabirnapol

सोशल मीडिया सेल

संतकबीरनगर



# संतकबीरनगर पुलिस



थाना दुधारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 28 / 2021 व 29 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

## जनपद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा दविश को दौरान 01 वारण्टी नाम पता रमापति गौतम पुत्र चन्द्रबली गौतम निवासी दोघटा उर्फ दुधरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

## शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।





# संतकबीरनगर पुलिस



## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 3304 द्वारा ट्रक पलटने से घालय को पहुंचाया गया अस्पताल -** पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत खलीलाबाद से इवेन्ट संख्या 03823 से कालर ने ट्रक पलटने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 09 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जरिए एम्बुलेंस

जिला चिकित्सालय जनपद संतकबीरनगर भेजा गया तथा घटना के संबन्ध में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद को निर्देशित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ – आरक्षी संघरतन, हो0चा0 मनीष पाण्डेय**

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनो से 625000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 29.01.201 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनो से 62500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।



@santkabirnapol



Pro Cell Santkabirnapol

सोशल मीडिया सेल  
संतकबीरनगर